

Eph

Chapter 5

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1 γίνεσθε οὖν μιμηταὶ τοῦ Θεοῦ, ὡς τέκνα ἀγαπητά,
बनो इस्लिये अनुकअरक -के परमेशवर, जैस बचचे प्रिये
[G1096](#) [G3767](#) [G3402](#) [G3588](#) [G2316](#) [G5613](#) [G5043](#) [G0027](#)

प्यारे बच्चों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो।

2 καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ
और चलो मेइन प्रेम जैस भि -ने खरिस्तोस प्रेम-किय हमेइन और
[G2532](#) [G4043](#) [G1722](#) [G0026](#) [G2531](#) [G2532](#) [G3588](#) [G5547](#) [G0025](#) [G1473](#) [G2532](#)

παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ Θεῷ, εἰς
उस्ने-सौम्प-दिय अपने-अअप-को के-लिये हमरे भेत और बलि -को परमेशवर के-लिये
[G3860](#) [G1438](#) [G5228](#) [G1473](#) [G4376](#) [G2532](#) [G2378](#) [G3588](#) [G2316](#) [G1519](#)

ὁσμὴν εὐωδίας.
सुगनध सुन्दर
[G3744](#) [G2175](#)

प्रेम के साथ जीओ। ठीक वैसे ही जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया है और अपने आप को मधुर-गंध-भेंट के रूप में, हमारे लिए परमेश्वर को अर्पित कर दिया है।

3 Πορνεία δὲ, καὶ ἀκαθαρσία παῖσα, ἣ πλεονεξία, μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν
परन्तु व्यभिचअर और सब अशुदधत य लोभ न नअम-भि-लिय-जये मेइन
[G4202](#) [G1161](#) [G2532](#) [G0167](#) [G3956](#) [G2228](#) [G4124](#) [G3366](#) [G3687](#) [G1722](#)

ὕμῃν, καθὼς πρέπει ἀγίοις;
तुम जैस योग्य-है पवित्रीन
[G4771](#) [G2531](#) [G4241](#) [G0040](#)

तुम्हारे बीच व्यभिचार और हर किसी तरह की अपवित्रता अथवा लालच की चर्चा तक नहीं चलनी चाहिए। जैसा कि संत जनों के लिए उचित ही है।

4 καὶ αἰσχροτήs, καὶ μωρολογία, ἣ εὐτραπेलία, ἃ οὐκ ἀνήκεν; ἀλλὰ
और लुचअरपन और मुरख-बअतेइन य मजअक जो नहिन योग्य परन्तु
[G2532](#) [G0151](#) [G2532](#) [G3473](#) [G2228](#) [G2160](#) [G3739](#) [G3756](#) [G0433](#) [G0235](#)

μᾶλλον εὐχαριστία.
बलकि धन्यवअद
[G3123](#) [G2169](#)

तुममें न तो अश्लील भाषा का प्रयोग होना चाहिए, न मूर्खतापूर्ण बातें या भद्दा हँसी ठट्टा। ये तुम्हारी अनुकूल नहीं हैं। बल्कि तुम्हारे बीच धन्यवाद ही दिये जायें।

5 τοῦτο γὰρ ἵστε, γινώσκοντες ὅτι πᾶς πόρνος, ἢ ἀκάθαρτος, ἢ
येह क्योनकि तुम-जअन्ते-हो जअन्ते-हुए कि हर व्यभिचरि य अशुदध य
[G3778](#) [G1063](#) [G1492](#) [G1097](#) [G3754](#) [G3956](#) [G4205](#) [G2228](#) [G0169](#) [G2228](#)

πλεονέκτηs, ὃ ἐστὶν εἰδωλολάτρης, οὐκ ἔχει κληρονομίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ
लोभि जो है मुरतिपुजक नहिन रखत विरसत मेइन -मेइन रजय
[G4123](#) [G3739](#) [G1510](#) [G1496](#) [G3756](#) [G2192](#) [G2817](#) [G1722](#) [G3588](#) [G0932](#)

τοῦ Χριστοῦ, καὶ Θεοῦ.
-के खरिस्तोस और परमेशवर
[G3588](#) [G5547](#) [G2532](#) [G2316](#)

क्योंकि तुम निश्चय के साथ यह जानते हो कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दुराचारी है, अपवित्र है अथवा लालची है, जो एक मूर्ति पूजक होने जैसा है। मसीह के और परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकार नहीं पा सकता।

6 Μηδεις ὑμᾶς ἀπατάτω κενοῖς λόγοις; διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ ὀργή
कोइ-न तुमहेइन भतकअये खोखे वचनोन के-दवर इन क्योनकि अअत-है -हो क्रोध
[G3367](#) [G4771](#) [G0538](#) [G2756](#) [G3056](#) [G1223](#) [G3778](#) [G1063](#) [G2064](#) [G3588](#) [G3709](#)

τοῦ Θεοῦ, ἐπὶ τοῦς υἱοῦς τῆς ἀπειθείας.
-क परमेशवर पर -को पुत्रोन -के अवग्य
[G3588](#) [G2316](#) [G1909](#) [G3588](#) [G5207](#) [G3588](#) [G0543](#)

देखो, तुम्हें कोरे शब्दों से कोई छल न ले। क्योंकि इन बातों के कारण ही आज्ञा का उल्लंघन करने वालों पर परमेश्वर का कोप होने को है।

7 μὴ οὖν γίνεσθε συμμετοχοὶ αὐτῶν;
न इस्लिये बनो सह-भअगि उनके
[G3361](#) [G3767](#) [G1096](#) [G4830](#) [G0846](#)

इसलिए उनके साथी मत बनो।

8 ἦτε γὰρ ποτε σκότος, νῦν δὲ, φῶς ἐν Κυρίῳ; ὡς τέκνα φωτὸς
तुम-थे क्योनकि कभि अनधेर अब पर जयोति मेइन प्रभु जैस बचचे जयोति
[G1510](#) [G1063](#) [G4218](#) [G4655](#) [G3568](#) [G1161](#) [G5457](#) [G1722](#) [G2962](#) [G5613](#) [G5043](#) [G5457](#)

περιπατεῖτε--
चलो
[G4043](#)

यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक समय था जब तुम अंधकार से भरे थे किन्तु अब तुम प्रभु के अनुयायी के रूप में ज्योति से परिपूर्ण हो। इसलिए प्रकाश पुत्रों का सा आचरण करो।

9 ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ φωτὸς ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ, καὶ δικαιοσύνῃ, καὶ
-हो क्योनकि फल -क जयोति मेइन सब भलै और धरमिक्त और
[G3588](#) [G1063](#) [G2590](#) [G3588](#) [G5457](#) [G1722](#) [G3956](#) [G0019](#) [G2532](#) [G1343](#) [G2532](#)

ἀληθείᾳ--
सत्य
[G0225](#)

हर प्रकार के धार्मिकता, नेकी और सत्य में ज्योति का प्रतिफलन दिखायी देता है।

10 δοκιμάζοντες τί ἐστὶν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ.
परख-ते-हुए क्य है भत -को प्रभु
[G1381](#) [G5101](#) [G1510](#) [G2101](#) [G3588](#) [G2962](#)

हर समय यह जानने का जतन करते रहो कि परमेश्वर को क्या भाता है।

11 καὶ μὴ συνκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκοτους, μᾶλλον
और न भअगि-बनो -मेइन कअरयोन -मेइन निशफल -के अनधेर बलकि
[G2532](#) [G3361](#) [G4790](#) [G3588](#) [G2041](#) [G3588](#) [G0175](#) [G3588](#) [G4655](#) [G3123](#)

δὲ καὶ ἐλέγχετε;
पर भि तुम-सअबित-करो
[G1161](#) [G2532](#) [G1651](#)

ऐसे काम जो अंधकारपूर्ण है, उन बेकार के कामों में हिस्सा मत बताओ बल्कि उनका भाँडा-फोड़ करो।

12 τὰ γὰρ κρυφῆ γινόμενα ὑπ' αὐτῶν, αἰσχροὺς ἐστὶν καὶ λέγειν.
-को क्योनकि गुप्तत-मेइन होति-हुएइ के-दवर उनके शरमनअक है भि कहन
[G3588](#) [G1063](#) [G2931](#) [G1096](#) [G5259](#) [G0846](#) [G0150](#) [G1510](#) [G2532](#) [G3004](#)

क्योंकि ऐसे काम जिन्हें वे गुप्तचुप करते हैं, उनके बारे में की गयी चर्चा तक लज्जा की बात है।

- 13 τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτός, φανεροῦνται πάν γὰρ; τὸ
-हो पर सब सअबित-किये-हुए के-दवर -के ज्योति प्रकत-होति-हैन सब क्योनकि -हो
[G3588](#) [G1161](#) [G3956](#) [G1651](#) [G5259](#) [G3588](#) [G5457](#) [G5319](#) [G3956](#) [G1063](#) [G3588](#)

φανερούμενον φῶς ἐστίν.
प्रकत-हुअ ज्योति है
[G5319](#) [G5457](#) [G1510](#)

| ज्योति जब प्रकाशित होती है तो सब कुछ दृश्यमान हो जाता है

- 14 διὸ λέγει, Ἔγειρε, ὁ καθεύδων, καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ
इस्लिये वोह-कहत-है जअग -हो सोने-वअले और उथ से -मेइन-से म्रितोन और
[G1352](#) [G3004](#) [G1453](#) [G3588](#) [G2518](#) [G2532](#) [G0450](#) [G1537](#) [G3588](#) [G3498](#) [G2532](#)

ἐπιφάσει σοι ὁ Χριστός.
चमकेग तुझ-पर -हो खरिस्तोस
[G2017](#) [G4771](#) [G3588](#) [G5547](#)

| और जो कुछ दृश्यमान हो जाता है, वह स्वयं ज्योति ही बन जाता है। इसीलिए हमारा भजन कहता है: “अरे जाग, हे सोने वाले! मृतकों में से जी उठ बैठ, तेरे ही सिर स्वयं मसीह प्रकाशित होगा।”

- 15 Βλέπετε οὖν ἀκριβῶς πῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ' ὡς σοφοί,
देखो इस्लिये सअवधनि-से कैसे तुम-चलते-हो न जैस मुख परन्तु जैस बुदधिमअन
[G0991](#) [G3767](#) [G0199](#) [G4459](#) [G4043](#) [G3361](#) [G5613](#) [G0781](#) [G0235](#) [G5613](#) [G4680](#)

| इसलिए सावधानी के साथ देखते रहो कि तुम कैसा जीवन जी रहे हो। विवेकहीन का सा आचरण मत करो, बल्कि बुद्धिमान का सा आचरण करो।

- 16 ἔξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραὶ εἰσιν.
मोल-लेते-हुए -को समय क्योनकि -हो दिन बुरे हैन
[G1805](#) [G3588](#) [G2540](#) [G3754](#) [G3588](#) [G2250](#) [G4190](#) [G1510](#)

| जो हर अवसर का अच्छे कर्म करने के लिये पूरा-पूरा उपयोग करते हैं, क्योंकि ये दिन बुरे हैं

- 17 διὰ τοῦτο, μὴ γίνεσθε ἄφρονες, ἀλλὰ συνίετε τί τὸ θέλημα τοῦ
इस-लिये इस न बनो निरबोध परन्तु समझो क्य -हो इच्छ -के
[G1223](#) [G3778](#) [G3361](#) [G1096](#) [G0878](#) [G0235](#) [G4920](#) [G5101](#) [G3588](#) [G2307](#) [G3588](#)

Κυρίου.

प्रभु
[G2962](#)

| इसलिए मूर्ख मत बनो बल्कि यह जानो कि प्रभु की इच्छा क्या है।

- 18 καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνω, ἐν ᾧ ἐστὶν ἀσωτία. ἀλλὰ πληροῦσθε
और न मदमस्त-बनो दअखरस्स मेइन जिस-मेइन है अपव्यय परन्तु भरपुर-हो
[G2532](#) [G3361](#) [G3182](#) [G3631](#) [G1722](#) [G3739](#) [G1510](#) [G0810](#) [G0235](#) [G4137](#)

ἐν Πνεύματι,
मेइन अतम
[G1722](#) [G4151](#)

| मदिरा पान करके मतवाले मत बने रहो क्योंकि इससे कामुकता पैदा होती है। इसके विपरीत आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ।

- 19 λαλοῦντες ἑαυτοῖς [ἐν] ψαλμοῖς, καὶ ὕμνοις, καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς;
बोलते-हुए अअपस-मेइन मेइन भजनोन और स्तुतियोन और गेएतोन अतमिक
[G2980](#) [G1438](#) [G1722](#) [G5568](#) [G2532](#) [G5215](#) [G2532](#) [G5603](#) [G4152](#)

ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ;
गअते-हुए और बजअते-हुए -मेइन दिल तुमहरे -को प्रभु
[G0103](#) [G2532](#) [G5567](#) [G3588](#) [G2588](#) [G4771](#) [G3588](#) [G2962](#)

| आपस में भजनों, स्तुतियों और आध्यात्मिक गीतों का, परस्पर आदानप्रदान करते रहो। अपने मन में प्रभु के लिए गीत गाते उसकी स्तुति करते रहो।

20 εὐχαριστοῦντες πάντοτε, ὑπὲρ πάντων, ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν, Ἰησοῦ
धन्यवाद-देते-हुए सद के-लिये सब मेइन नअम -के प्रभु हमरे येशु
[G2168](#) [G3842](#) [G5228](#) [G3956](#) [G1722](#) [G3686](#) [G3588](#) [G2962](#) [G1473](#) [G2424](#)

Χριστοῦ; τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ;
खरिस्तोस -को परमेशवर और पित
[G5547](#) [G3588](#) [G2316](#) [G2532](#) [G3962](#)

| हर किसी बात के लिये हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमारे परमपिता परमेश्वर का सदा धन्यवाद करो।

21 ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ.
अधेएन्त-मेइन-होते-हुए एक-दुसे मेइन दर खरिस्तोस
[G5293](#) [G0240](#) [G1722](#) [G5401](#) [G5547](#)

| मसीह के प्रति सम्मान के कारण एक दूसरे को समर्पित हो जाओ।

22 Αἱ γυναῖκες, τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ὡς τῷ Κυρίῳ,
-हो पतनियअन -के अपने पतियों जैस -को प्रभु
[G3588](#) [G1135](#) [G3588](#) [G2398](#) [G0435](#) [G5613](#) [G3588](#) [G2962](#)

| हे पत्नियो, अपने-अपने पतियों के प्रति ऐसे समर्पित रहो, जैसे तुम प्रभु को समर्पित होती हो।

23 ὅτι ἀνὴρ ἐστὶν κεφαλὴ τῆς γυναικός, ὡς καὶ ὁ Χριστὸς κεφαλὴ
क्योनकि पति है सिर -क पतनि जैस भि -हो खरिस्तोस सिर
[G3754](#) [G0435](#) [G1510](#) [G2776](#) [G3588](#) [G1135](#) [G5613](#) [G2532](#) [G3588](#) [G5547](#) [G2776](#)

τῆς ἐκκλησίας -- αὐτὸς σωτὴρ τοῦ σώματος.
-क कलिसिअ वहि उधअरकरत -क शरेएर
[G3588](#) [G1577](#) [G0846](#) [G4990](#) [G3588](#) [G4983](#)

| क्योंकि अपनी पत्नी के ऊपर उसका पति ही प्रमुख है। वैसे ही जैसे हमारी कलीसिया का सिर मसीह है। वह स्वयं ही इस देह का उद्धार करता है।

24 ἀλλὰ ὡς ἡ ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτως καὶ αἱ γυναῖκες
परन्तु जैस -हो कलिसिअ अधेएन्त-मेइन-है -के खरिस्तोस, वैसे भि -हो पतनियअन
[G0235](#) [G5613](#) [G3588](#) [G1577](#) [G5293](#) [G3588](#) [G5547](#) [G3779](#) [G2532](#) [G3588](#) [G1135](#)

τοῖς ἀνδράσιν ἐν παντί.
-के पतियों मेइन सब
[G3588](#) [G0435](#) [G1722](#) [G3956](#)

| जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियों को सब बातों में अपने अपने पतियों के प्रति समर्पित रहना चाहिए।

25 Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν τὴν
-हो पतियो प्रेम-करो -से पतनियों जैस भि -ने खरिस्तोस प्रेम-किय -से
[G3588](#) [G0435](#) [G0025](#) [G3588](#) [G1135](#) [G2531](#) [G2532](#) [G3588](#) [G5547](#) [G0025](#) [G3588](#)

ἐκκλησίαν, καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς,
कलिसिअ और अपने-अअप-को उरने-सौम्य-दिय के-लिये उसके
[G1577](#) [G2532](#) [G1438](#) [G3860](#) [G5228](#) [G0846](#)

| हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम करो। वैसे ही जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आपको उसके लिये बलि दे दिया।

26 ἵνα αὐτὴν ἀγιάσῃ, καθάρισας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι,
कि उसे वोह-पवित्र-करे शुद्ध-करके -के स्नअन -के पअनि मेइन वचन
[G2443](#) [G0846](#) [G0037](#) [G2511](#) [G3588](#) [G3067](#) [G3588](#) [G5204](#) [G1722](#) [G4487](#)

| ताकि वह उसे प्रभु की सेवा में जल में स्नान करा के पवित्र कर हमारी घोषणा के साथ परमेश्वर को अर्पित कर दे।

- 27 ἵνα παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον, τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπίλον,
 कि वोह-प्रस्तुत-करे वहि अपने-लिये तेजोमय -को कलिसिअ न रखति-हुइ दअघ
[G2443](#) [G3936](#) [G0846](#) [G1438](#) [G1741](#) [G3588](#) [G1577](#) [G3361](#) [G2192](#) [G4696](#)
- ἡ ῥυτίδα, ἡ τι τῶν τοιοούτων; ἀλλ' ἵνα ἧ ἁγία καὶ ἄμωμος.
 य झुररि य कुछ -मेइन-से ऐसोन परन्तु कि वोह-हो पवित्र और निरदोश
[G2228](#) [G4512](#) [G2228](#) [G5100](#) [G3588](#) [G5108](#) [G0235](#) [G2443](#) [G1510](#) [G0040](#) [G2532](#) [G0299](#)

इस प्रकार वह कलीसिया को एक ऐसी चमचमाती दुल्हन के रूप में स्वयं के लिए प्रस्तुत कर सकता है जो निष्कलंक हो, झुरियों से रहित हो या जिसमें ऐसी और कोई कमी न हो। बल्कि वह पवित्र हो और सर्वथा निर्दोष हो।

- 28 οὕτως ὀφείλουσιν καὶ οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας, ὡς τὰ
 ऐसे उनहे-चहिये भि -हो पतियोन प्रेम-करन -से अपनि पतनियोन जैस -को
[G3779](#) [G3784](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0435](#) [G0025](#) [G3588](#) [G1438](#) [G1135](#) [G5613](#) [G3588](#)
- ἑαυτῶν σώματα. ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα, ἑαυτὸν ἀγαπᾷ.
 अपने शरेएर -हो प्रेम-करने-वअल -से अपनि पतनि अपने-अअप-से प्रेम-करत-है
[G1438](#) [G4983](#) [G3588](#) [G0025](#) [G3588](#) [G1438](#) [G1135](#) [G1438](#) [G0025](#)

पतियों को अपनी-अपनी पत्नियों से उसी प्रकार प्रेम करना चाहिए जैसे वे स्वयं अपनी देहों से करते हैं। जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है, वह स्वयं अपने आप से ही प्रेम करता है।

- 29 οὐδεὶς γὰρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν, ἀλλὰ ἐκτρέφει καὶ
 कोइ-नहिन क्योनकि कभि -से अपने मअनस नफ़रत-करत परन्तु वोह-पोशित-करत-है और
[G3762](#) [G1063](#) [G4218](#) [G3588](#) [G1438](#) [G4561](#) [G3404](#) [G0235](#) [G1625](#) [G2532](#)
- θάλαπει αὐτήν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς τὴν ἐκκλησίαν:
 स्नेह-करत-है उसे जैस भि -हो खरिस्तोस -से कलिसिअ
[G2282](#) [G0846](#) [G2531](#) [G2532](#) [G3588](#) [G5547](#) [G3588](#) [G1577](#)

कोई अपनी देह से तो कभी घृणा नहीं करता, बल्कि वह उसे पालता-पोसता है और उसका ध्यान रखता है। वैसे ही जैसे मसीह अपनी कलीसिया का

- 30 ὅτι μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ, <ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, καὶ ἐκ
 क्योनकि अअग हुअ-हैन -के शरेएर उसके से -के मअनस उसके और से
[G3754](#) [G3196](#) [G1510](#) [G3588](#) [G4983](#) [G0846](#) [G1537](#) [G3588](#) [G4561](#) [G0846](#) [G2532](#) [G1537](#)
- τῶν ὀστέων αὐτοῦ>.
 -के हधधियोन उस्कि
[G3588](#) [G3747](#) [G0846](#)

क्योंकि हम भी तो उसकी देह के अंग ही हैं।

- 31 ἀντὶ τούτου, καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καὶ
 इस-लिये इस छोदेग मनुश्य -को पित और -को मअत और
[G0473](#) [G3778](#) [G2641](#) [G0444](#) [G3588](#) [G3962](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3384](#) [G2532](#)
- προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἷς
 जुध-जअयेग के-सथ -के पतनि उस्कि और होअगे -हो दोनोन मेइन
[G4347](#) [G4314](#) [G3588](#) [G1135](#) [G0846](#) [G2532](#) [G1510](#) [G3588](#) [G1417](#) [G1519](#)
- σάρκα μίαν.
 मअनस एक
[G4561](#) [G1520](#)

शास्त्र कहता है: "इसीलिए एक पुरुष अपने माता-पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से बंध जाता है और दोनों एक देह हो जाते हैं।"

32 τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν; ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν, καὶ
-हो रहस्य येह बध है मैं पर कहत-होओन के-बअरे-मेइन खरिस्तोस और
[G3588](#) [G3466](#) [G3778](#) [G3173](#) [G1510](#) [G1473](#) [G1161](#) [G3004](#) [G1519](#) [G5547](#) [G2532](#)

εἰς τὴν ἐκκλησίαν.
के-बअरे-मेइन -के कलिसिअ
[G1519](#) [G3588](#) [G1577](#)

| यह रहस्यपूर्ण सत्य बहुत महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह मसीह और कलीसिया पर भी लागू होता है।

33 πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ' ἓνα, ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα, οὕτως
फ़िर-भि भि तुम -हो के-अनुसअर एक हर-एक -से अपनि पतनि ऐसे
[G4133](#) [G2532](#) [G4771](#) [G3588](#) [G2596](#) [G1520](#) [G1538](#) [G3588](#) [G1438](#) [G1135](#) [G3779](#)

ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν; ἢ δὲ γυνή, ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα.
प्रेम-करे जैस अपने-अअप-से -हो पर पतनि कि वोह-दरे -से पति
[G0025](#) [G5613](#) [G1438](#) [G3588](#) [G1161](#) [G1135](#) [G2443](#) [G5399](#) [G3588](#) [G0435](#)

| सो कुछ भी हो, तुममें से हर एक को अपनी पत्नी से वैसे ही प्रेम करना चाहिए जैसे तुम स्वयं अपने आपको करते हो। और एक पत्नी को भी अपने पति का डर मानते हुए उसका आदर करना चाहिए।